

सुपरकंप्यूटर परम गंगा

प्रिलमिंस के लिये:

परम प्रवेग, सुपरकंप्यूटर, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मशिन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन)।


मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मशिन, आईटी और कंप्यूटर, वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

चर्चा में क्यों?

आईआईटी रुड़की में [राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मशिन \(NSM\)](#) के तहत 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नामक एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटेशनल (HPC) सुविधा प्रदान की गई है।

- इससे पहले भारतीय वजिज्ञान संस्थान (IISc) बंगलुरु ने सुपर कंप्यूटर 'परम प्रवेग' स्थापित किया था।



//

प्रमुख बडि

- यह NSM के तहत ['सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग'](#) (सी-डैक) द्वारा स्थापित किया गया है।
- भारत में नरिमति घटकों के साथ एक पेटास्केल सुपरकंप्यूटर बनाने के पीछे मूल वचिर आत्मनरिभर भारत की ओर मार्ग का नेतृत्व करना और बहु-वषियक डोमेन में समस्या-समाधान क्षमता को एक साथ तेज करना है।
- यह शोधकर्त्ताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व की जटलि समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।
- यह सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के साथ-साथ आधुनिक शोध के लिये एक आवश्यक कंप्यूटर के रूप में कार्य करेगा।
- आईआईटी रुड़की और अन्य नजदीकी शैक्षणिक संस्थानों के उपयोगकर्त्ता समुदाय को कंप्यूटेशनल शक्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सुपरकंप्यूटर:

- सुपरकंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर पर या उसके नकिट प्रदर्शन करता है।
- आमतौर पर पेटाफ्लॉप एक सुपरकंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का माप है और इसे प्रति सेकंड एक हजार ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

- FLOPS (फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने के लिये किया जाता है।
- फ्लोटिंग-पॉइंट एनकोडिंग का उपयोग करके बहुत लंबी संख्याओं को अपेक्षाकृत आसानी से नयितरति किया जा सकता है।
- सुपरकंप्यूटर मुख्य रूप से उन उद्यमों और संगठनों में उपयोग करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्त की आवश्यकता होती है।
 - **उदाहरण के लिये:** मौसम का पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण, डेटा माइनिंग आदि।
- विश्व स्तर पर चीन के पास सबसे अधिक सुपरकंप्यूटर हैं और दुनिया में शीर्ष स्थान पर कायम है, इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।
- **भारत का पहला सुपरकंप्यूटर परम 8000 था।**
- स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपरकंप्यूटर **परम शिविय** IIT- BHU में स्थापित किया गया है, इसके बाद IIT-खड़गपुर, IISER, पुणे, JNCASR, बंगलूरु और IIT कानपुर में क्रमशः **परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक** को स्थापित किया गया है।
- वर्ष 2020 में **हाई-परफॉर्मंस कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HPC-AI) सुपरकंप्यूटर परम सदिधि** ने दुनिया के शीर्ष **500** सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर सस्टिम में **62वें** स्थान पर वैश्विक रैंकिंग हासिल की है।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मशिन:

- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मशिन (National Supercomputing Mission) को **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)** के साथ जोड़कर देश में अनुसंधान क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिये लॉन्च किया गया।
 - एनकेएन परियोजना का उद्देश्य एक **मज़बूत और ठोस भारतीय नेटवर्क स्थापित** करना है जो सुरक्षित व विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी।
- मशिन की 64 से अधिक पेटाफ्लॉप्स (Petaflops) की संचयी परकिलन क्षमता के साथ 24 सुविधाओं (24 Facilities) का निर्माण और उनकी तैनाती करने की योजना है।
 - अभी तक सी-डैक ने एनएसएम चरण-1 और चरण-2 के तहत 20 से अधिक पेटाफ्लॉप्स की संचयी परकिलन क्षमता के साथ सी-डैक में 11 प्रणालियाँ तैनात कर दी गई हैं।
- यह सरकार के **'डिजिटल इंडिया'** और **'मेक इन इंडिया'** पहल पर केंद्रित है।
- मशिन को संयुक्त रूप से वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
 - इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बंगलूरु द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मशिन को तीन चरणों में क्रियान्वयित करने की योजना है जो निम्नलिखित हैं:
 - चरण I सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना।
 - चरण II देश के भीतर कुछ घटकों के निर्माण पर विचार करना।
 - चरण III इस चरण में सुपर कंप्यूटर को भारत में ही डिज़ाइन किया जाना शामिल है।
- एक पायलट सस्टिम में 'रुद्र' (Rudra) नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें इंटर-नोड संचार हेतु त्रिनेत्र (Trinetra) नामक एक इंटरकनेक्ट भी विकसित किया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.